



30 अक्टूबर 2023

कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





प्रमुख खबरें

- अंतर्राष्ट्रीय लेड और जिंक अध्ययन समूह के आंकड़ों से पता चलता है कि अगस्त में वैश्विक लिंक बाजार का सरप्लस एक महीने पहले के 2,900 टन से बढ़कर 22,000 मीट्रिक टन हो गया।
- इंटरनेशनल लेड और जिंक स्टडी ग्रुप के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक लेड बाजार में 2023 के पहले आठ महीनों में 71,000 टन का सरप्लस दर्ज किया गया, जबकि एक साल पहले की अवधि में 141,000 टन की कमी थी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू रबी सीजन के लिए फॉस्फोरस और पोटैश उर्वरकों पर 22,303 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी, जबकि 2022 रबी सीजन में 51,875 करोड़ आवंटित किए गए थे।
- भारत सरकार बासमती चावल के निर्यात के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य 1,200 डॉलर से घटाकर 950 डॉलर प्रति टन करने पर सहमत हो गई है।
- पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल के अनुसार, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आयातक

भारत द्वारा कच्चे तेल का आयात इस साल सितंबर में 12 महीने के निचले स्तर 17.80 मिलियन टन पर पहुंच गया।

- इस्पात मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष-24 की अप्रैल-सितंबर अवधि में इस्पात की खपत एक साल पहले की अवधि से 15% बढ़कर 64 मिलियन टन हो गई।
- घरेलू आपूर्ति में सुधार के माध्यम से कीमतों में किसी भी बढ़ोतरी को रोकने के लिए, सरकार ने वर्ष की शुरुआत से 2.13 मिलियन टन दालों-अरहर, उड़द और मसूर का आयात किया है।
- भारतीय खान ब्यूरो के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, भारत का खनिज उत्पादन अगस्त महीने में एक साल पहले समान महीने की तुलना में 12.3 प्रतिशत बढ़ गया।
- पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में भारत का पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन सालाना आधार पर 5.5% बढ़कर 21.5 मिलियन टन हो गया है।

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	20.10.23	26.10.23	बदलाव (%)
बाजरा	2151.00	2236.00	3.95%
मक्का	2026.00	2106.00	3.95%
कॉटनऑयलसीडकेक	2738.00	2819.00	2.96%
ग्वारसीड	5735.00	5872.00	2.39%
जौ	2083.50	2126.50	2.06%

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	20.10.23	26.10.23	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	245.80	248.90	1.26%
सोना एम	59935.00	60652.00	1.20%
सोना	60318.00	60826.00	0.84%
मेंथा ऑयल	899.20	905.70	0.72%
सोना गिनी	48186.00	48465.00	0.58%

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	20.10.23	26.10.23	बदलाव (%)
जीरा	57200.00	46915.00	-17.98%
सीसेमसीड	18505.00	17990.00	-2.78%
हल्दी	13216.00	13092.00	-0.94%
स्वील	44510.00	44390.00	-0.27%

MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	20.10.23	26.10.23	बदलाव (%)
कच्चा तेल	7330.00	6974.00	-4.86%
लेड	185.90	182.50	-1.83%
निकल	1593.00	1565.00	-1.76%
तांबा	700.55	693.10	-1.06%
सोना पेटल	5947.00	5946.00	-0.02%

साप्ताहिक समीक्षा

सीआरबी इंडेक्स काफी कम दायरे में फंसा रहा लेकिन 320 के स्तर से ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। डॉलर सूचकांक सप्ताह के अंत में बढ़त के साथ समाप्त हुआ। 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में भी वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर, सोने की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह बढ़त दर्ज की गई, क्योंकि निवेशकों ने इसे सुरक्षित निवेश के रूप में तलाशना जारी रखा, जो आंशिक रूप से इक्विटी और अन्य जोखिम वाली परिसंपत्तियों से धन के स्थानांतरण के कारण था। इजरायली सेना ने हमला के साथ अपने 20 दिन पुराने युद्ध में गाजा में अपने सबसे बड़े जमीनी हमले को अंजाम दिया, क्योंकि फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायल के अविश्वसनीय हवाई हमलों पर अरब दुनिया में गुस्सा बढ़ गया था। इसने सोने में युद्ध प्रीमियम की बढ़ोतरी हुई, और एमसीएक्स सोना 61300 के करीब बंद हुआ। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, जैसी कि गुरुवार को उम्मीद थी, जिससे 15 महीने से की जा रही दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला टूट गया। औद्योगिक धातु बाजार में ठहराव के कारण चांदी की कीमतों की तेजी रुक गई। नेचुरल गैस की कीमतें न्यूनतम वृद्धि के साथ सीमित दायरे में रहीं। कच्चे तेल की कीमतों में हाल के उच्चतम स्तर से गिरावट हुई है। इस गुरुवार की शुरुआत में इजराइल द्वारा गाजा में एक छोटी सी घुसपैठ के बाद तनाव बढ़ने से नेचुरल गैस की कीमतें बढ़कर 3.44 डॉलर हो गईं। बेस मेटल में तांबा और लेड की कीमतों में गिरावट देखी गई, जबकि एल्युमीनियम और जिंक बढ़त के साथ बंद हुए। चीन ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 1 ट्रिलियन युआन (136.65 बिलियन डॉलर) के सॉवरन बांड जारी करने को मंजूरी दे दी है, जिससे धातुओं की कीमतों में थोड़ी वृद्धि हुई है। लेकिन इससे प्रभावित क्षेत्र में नए घरों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण को कुछ बढ़ावा मिलेगा, लेकिन यह एक संपूर्ण प्रत्यक्ष प्रोत्साहन के विपरीत है जिसने पिछले दो दशकों में धातुओं की चीनी मांग को बढ़ावा दिया है।

कृषि क्षेत्र में, अरंडी को लगातार गिरावट का दबाव झेलना पड़ रहा है और कोई राहत नजर नहीं आ रही है। लेकिन अरंडी की घटती आपूर्ति और मिल मालिकों के बेहतर पेराई मार्जिन ने गिरावट को सीमित कर दिया है। कॉटनऑयलसीडकेक वायदा कीमतों में मामूली सुधार हुआ। कपास में निचले मूल्य स्तरों पर कुछ खरीदारी दर्ज की गई। ग्वारसीड और ग्वारगम वायदा की कीमतों में तीन सप्ताह की तेजी के बाद राहत मिली। नई फसल की आवक बढ़ने लगी है लेकिन पिछले साल की तुलना में अभी भी कम है। जीरा ने सात सप्ताह की महत्वपूर्ण गिरावट के साथ ध्यान आकर्षित किया है, जो 63695 के अपने उच्चतम स्तर से गिरकर 47500 के निचले स्तर पर आ गया है। अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण जीरा की आगामी बुआई सामान्य रहने को उम्मीद है, इसलिए जीरा की कीमतों में गिरावट हुई है। मिट्टी में पर्याप्त नमी और फसल के लिए मौसम की अनुकूल स्थिति से कुल बुआई गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, सुस्त निर्यात मांग से भी कीमतों पर दबाव पड़ेगा। बाजार में पर्याप्त आपूर्ति के बीच हाजिर बाजार में कमजोर कारोबार के कारण धनिया वायदा की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। मिलों ने कीमतों में अधिक गिरावट की उम्मीद में जल्द आधारीत खरीदारी को प्राथमिकता दी, जबकि स्टॉक कीमतों में हर उछाल पर स्टॉक जारी कर रहे हैं। मेंथा ऑयल की कीमतें सीमित दायरे में रहीं। मेंथॉल का कुल निर्यात अप्रैल-जुलाई-23 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष के 5.2 हजार टन के मुकाबले 4.2 हजार टन बताया गया है।



हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	20.10.2023	26.10.2023	बदलाव(%)
जौ	जयपुर	2,080.00	2,116.05	1.73%
चना	दिल्ली	6480.15	6393.25	-1.34%
धनिया	कोटा	7127.30	7125.25	-0.03%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	779.85	782.95	0.40%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1477.45	1424.30	-3.60%
ग्वारसीड	जोधपुर	5865.20	5937.30	1.23%
ग्वारगम	जोधपुर	12112.65	12175.15	0.52%
जीरा	ऊझा	56109.90	49698.30	-11.43%
सरसों	जयपुर	5999.45	5979.15	-0.34%
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	922.50	920.00	-0.27%
सोयाबीन	इंदौर	4951.50	5057.60	2.14%
हल्दी	निजामाबाद	13567.00	13377.25	-1.40%
गेहूं	दिल्ली	2750.00	2902.50	5.55%
कॉटन	कड़ी	27727.80	27553.00	-0.63%
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	2624.3	2655.95	1.21%

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	20.10.2023	26.10.2023	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2181.50	2197.50	0.73%
तांबा	LME	नकद	7948.50	7985.50	0.47%
लेड	LME	नकद	2099.50	2094.00	-0.26%
निकल	LME	नकद	18588.00	18079.00	-2.74%
जिंक	LME	नकद	2438.00	2435.00	-0.12%
सोना	COMEX	दिसम्बर	1994.40	1997.40	0.15%
चांदी	COMEX	दिसम्बर	23.39	22.80	-2.52%
लाइट क्रूड	NYMEX	नवम्बर	88.75	83.21	-6.24%
नेचुरल गैस	NYMEX	नवम्बर	2.90	3.21	10.87%

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	20.10.2023	26.10.2023	बदलाव(%)
सोयाबीन	CBOT	नवम्बर	13.20	13.00	-1.52%
सोया तेल	CBOT	दिसम्बर	52.66	51.10	-2.96%
कॉटन	ICE	दिसम्बर	82.40	84.59	2.66%
सीपीओ	BMD	दिसम्बर	3,771.00	3,762.00	-0.24%

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	19.10.2023 क्वांटिटी	25.10.2023 क्वांटिटी	अंतर
कॉटन	मी.टन	0	24248	24248
बाजरा	मी.टन	664	694	30
मक्का	मी.टन	0	0	0
कैस्टर सीड	मी.टन	9534	9974	440
चना	मी.टन	10920	10571	-349
धनिया	मी.टन	0	0	0
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	16949	17083	134
ग्वारगम	मी.टन	17843	18039	196
ग्वारसीड	मी.टन	54	54	0
जीरा	मी.टन	3044	2058	-986
मक्का	मी.टन	0	0	0
स्टील लॉन	मी.टन	422	422	0
हल्दी	मी.टन	2081	2161	80

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	20.10.2023 क्वांटिटी	25.10.2023 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	748	748	0
तांबा	मी.टन	2090893	2816798	725905
सोना	किग्रा	496	539	43
सोना मिनी	किग्रा	2760	2760	0
सोना गिनी	किग्रा	129100	104100	-25000
लेड	किग्रा	0	0	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	19067	32141	13074
चांदी एम	किग्रा	36363	36363	0
जिंक	मी.टन	0	0	0

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 20.10.2023	स्टॉक की स्थिति 26.10.2023	अंतर
एल्युमीनियम	486450	480250	-6200.00
तांबा	190450	182900	-7550.00
निकल	44862	45564	702.00
लेड	115225	123375	8150.00
जिंक	76250	78375	2125.00



ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कांटेक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	नवम्बर	46915.00	10.10.23	मंदी	58000.00	-	49500.00	50000.00
NCDEX	हल्दी	दिसम्बर	13092.00	20.09.23	मंदी	15000.00	-	13500.00	13700.00
NCDEX	ग्वारसीड	नवम्बर	5872.00	05.10.23	तेजी	5500.00	5550.00	-	5500.00
NCDEX	कैस्टरसीड	नवम्बर	6008.00	14.09.23	मंदी	6300.00	-	6250.00	6300.00
NCDEX	स्टील लांग	नवम्बर	44390.00	27.09.23	मंदी	46300.00	-	45000.00	45300.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	दिसम्बर	2819.00	02.08.23	तेजी	2400.00	2680.00	-	2650.00
MCX	मेंथा ऑयल	नवम्बर	915.70	27.09.23	मंदी	930.00	-	945.00	950.00
MCX	बुलडेक्स	नवम्बर	16012.00	10.10.23	तेजी	15000.00	15500.00	-	15450.00
MCX	चांदी	दिसम्बर	71580.00	10.10.23	तेजी	69000.00	70200.00	-	70000.00
MCX	सोना	दिसम्बर	60952.00	10.10.23	तेजी	57500.00	59200.00	-	59000.00
MCX	तांबा	नवम्बर	700.35	03.10.23	मंदी	700.00	-	720.00	725.00
MCX	लेड	नवम्बर	185.60	10.10.23	मंदी	187.00	-	191.00	192.00
MCX	जिंक	नवम्बर	220.15	03.10.23	मंदी	225.00	-	233.00	235.00
MCX	एल्युमिनियम	नवम्बर	203.85	04.10.23	मंदी	206.00	-	212.50	213.00
MCX	कच्चा तेल	नवम्बर	6945.00	18.10.23	तेजी	7300.00	6800.00	-	6750.00
MCX	नेचुरल गैस	नवम्बर	291.50	19.10.23	मंदी	280.00	-	300.00	305.00

*26/10/2023 का बंद भाव

नाट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में मजबूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर ग्राफ को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

जिंक (नवम्बर) एमसीएक्स



जिंक (नवम्बर) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 234.30

निचला स्तर: 218.75

एमसीएक्स में जिंक (नवम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 26 अक्टूबर 2023 को 220.15 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 221.80 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 48.806 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

230.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 215.00 ₹ के टारगेट के लिए 225.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

ग्वारसीड (नवम्बर) एनसीडीईएक्स



ग्वारसीड (नवम्बर) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 6929.00

निचला स्तर: 5496.00

एनसीडीईएक्स में ग्वारसीड (नवम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 26 अक्टूबर 2023 को 5872.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 5857.92 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 55.489 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

5650.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 6100.00 ₹ के टारगेट के लिए 5800.00 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

नेचुरल गैस (नवम्बर) एमसीएक्स



नेचुरल गैस (नवम्बर) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 312.90

निचला स्तर: 268.20

एमसीएक्स में नेचुरल गैस (नवम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 26 अक्टूबर 2023 को 291.90 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 286.70 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 66.93 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

265.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 310.00 ₹ के टारगेट के लिए 280.00 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मसाले

घरेलू मांग में सुस्ती के कारण पिछले सप्ताह हल्दी की कीमतों में गिरावट हुई। प्रचलित स्तरों पर भौतिक मांग कमजोर दिखाई दे रही है क्योंकि जुलाई-23 में 18076 के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छूने के बाद कीमतों में लगातार गिरावट हुई है। कीमतों में रिकॉर्ड उच्च स्तर से 25% की गिरावट के बावजूद, हल्दी की कीमतें अभी भी पिछले साल के 7300 के स्तर की तुलना में लगभग दोगुनी हैं। मांग कम रहने की संभावना है क्योंकि कीमतों में फिर से गिरावट की उम्मीद में स्टॉकिस्ट और मिलें थोक खरीदारी से बच रही हैं। फसल वृद्धि के लिए अनुकूल मौसम के साथ बेहतर उपज की संभावनाओं से बाजार के सेंटीमेंट पर असर पड़ने की संभावना है। अगस्त-23 में हल्दी के निर्यात में गिरावट की रिपोर्ट से भी कीमतों पर दबाव पड़ेगा। भारत ने अगस्त-23 में लगभग 11.3 हजार टन का निर्यात किया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 12.13 हजार टन था। लेकिन, अप्रैल-23-अगस्त-23 की समय अवधि के दौरान हल्दी का कुल निर्यात साल-दर-साल 16.2% अधिक रहा है। हल्दी की कीमतों के नरमी के रुझान के साथ कारोबार करने की संभावना है और और कीमतें 13900 के रेंजिस्टेंस के साथ 11500 तक फिसल सकती हैं।

हाजिर बाजार में धीमी खरीदारी के कारण जीरा की कीमतों में भारी गिरावट हुई है। कीमतों में फिर से गिरावट की आशंका से स्टॉकिस्टों ने अपना स्टॉक बेचना शुरू कर दिया है। आगामी सीजन के लिए बेहतर उत्पादन संभावनाओं के बीच निर्यात में कमी की रिपोर्ट के कारण कीमतें कम हो रही हैं। मौसम की अनुकूल स्थिति के कारण बुआई गतिविधियाँ सकारात्मक रूप से शुरू होने की संभावना है, जिसमें बेहतर कीमतों की प्राप्ति के कारण जीरा का रकबा भी बढ़ने की उम्मीद है। जीरा निर्यात अगस्त-23 में पिछले वर्ष के 23.5 हजार टन के मुकाबले 71% कम होकर 6.6 हजार टन रह गया। अप्रैल-23-अगस्त-23 के दौरान जीरा का कुल निर्यात 64.17 हजार टन दर्ज किया गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 86.9 हजार टन था। आगे चलकर निर्यात कम रहने की संभावना है जिससे कीमतों पर असर पड़ेगा। जीरा की कीमतों को 41600/38000 के करीब सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जबकि 53800 पर रेंजिस्टेंस देखा जा सकता है।

मौजूदा स्तर पर सुस्त खरीदारी के कारण धनिया की कीमतों में गिरावट की संभावना है। प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर पर्याप्त स्टॉक से बाजार के सेंटीमेंट पर असर पड़ा। आगे बढ़ते हुए, बाजार की नजर आगामी बुआई गतिविधियों पर रहेगी, जो अक्टूबर के अंत में शुरू होने की संभावना है। मौसम की स्थिति बुआई के लिए अनुकूल दिख रही है जिससे बुआई गतिविधियाँ सकारात्मक रूप से शुरू होंगी। लेकिन निर्यात मांग सक्रिय है और निर्यात में अधिक सुधार होने की उम्मीद है। भारत ने पिछले वर्ष के 2.6 हजार टन के मुकाबले अगस्त-23 में लगभग 6.2 हजार टन धनिया का निर्यात किया, जबकि अप्रैल-23-अगस्त-23 के दौरान कुल निर्यात 81.3 हजार टन दर्ज किया गया, जो साल-दर-साल 268% अधिक है। अन्य उत्पादक देशों पर आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण वर्ष 2023 में धनिया निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। धनिया की कीमतों के 6400-7300 के दायरे में रहने की संभावना है।

अन्य कमोडिटीज

बाजार में बढ़ती आवक के दबाव के कारण कपास की कीमतों में गिरावट की संभावना है। भारत के उत्तरी भाग में ताजा आवक बढ़ी है और कटाई गतिविधियों में प्रगति के साथ मध्य क्षेत्र में भी इसमें तेजी आने की संभावना है। कटाई के लिए मौसम की स्थिति अनुकूल है जिससे बाजार में नई फसल की आपूर्ति बढ़ेगी। मांग में सुधार की संभावनाओं के मद्देनजर कपास की कीमतों में गिरावट सीमित होने की संभावना है। निर्यात मांग और सर्दियों के मौसम की मांग आने वाले महीनों में बढ़ने की संभावना है। यूएसडीए ने अपने नवीनतम अनुमान में विश्व स्तर पर कपास के अंतिम स्टॉक के अनुमान को 89.96 मिलियन गांठ से घटाकर 79.92 मिलियन गांठ कर दिया है, जिससे कीमतों में होने वाले नुकसान पर भी अंकुश लगेगा। एमसीएक्स पर कॉटन (नवम्बर) की कीमतों के 57000-61500 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। इसी तरह, कपास (अप्रैल-24) वायदा की कीमतों में 1560-1670 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

इसी तरह, बाजार में वैकल्पिक भोजन की उपलब्धता बढ़ने से कॉटनऑयलसीडकेके की कीमतों में गिरावट की संभावना है। आपूर्ति की बेहतर संभावनाओं से कीमतों पर असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में कॉटनसीडऑयलकेके की कीमतों के 2640 के सपोर्ट तक फिसलने की उम्मीद है जबकि रेंजिस्टेंस 2860 पर रह सकता है।

भौतिक बाजार में बढ़ती मांग के कारण ग्वारसीड (नवंबर) वायदा की कीमतों में तेजी की संभावना है। कमजोर उत्पादन अनुमान के मद्देनजर स्टॉकिस्ट मौजूदा स्तर पर खरीदारी में रुचि दिखा रहे हैं। लेकिन ग्वारगम के निर्यात में गिरावट की रिपोर्ट से बढत सीमित रहेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सीमित खरीद के कारण अगस्त-23 में ग्वारगम का निर्यात माह-दर-माह 16% घटकर 17 हजार टन के करीब रह गया। लेकिन खाड़ी देशों के बीच चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से अमेरिका में ड्रिलिंग गतिविधियों में वृद्धि की उम्मीद जगी है, जिससे ग्वारगम की निर्यात मांग में वृद्धि होगी। कम उत्पादन और अक्टूबर-दिसंबर में ग्वारगम की मौसमी मांग में वृद्धि की उम्मीद से कीमतों को आगे तेजी के रुझान के साथ कारोबार करने की संभावना है। ग्वारसीड की कीमतों को 5650 पर सपोर्ट रहने की संभावना है और 6250 के रेंजिस्टेंस स्तर तक बढ़ने की उम्मीद है। ग्वारगम की कीमतों के 11000-13600 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

मांग संबंधी चिंताओं के कारण मेंथा ऑयल की कीमतों में गिरावट की संभावना है। मेन्थॉल की निर्यात मांग कम हो गई है, जिससे स्टॉकिस्ट थोक खरीदारी से दूरी बनाए हुए है। भारत ने जुलाई, 2023 में पिछले वर्ष के 1.9 हजार टन की तुलना में लगभग 1.5 हजार टन मेन्थॉल का निर्यात किया। मेन्थॉल का कुल निर्यात अप्रैल-जुलाई-23 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष के 5.2 हजार टन के मुकाबले 4.2 हजार टन हुआ है। लेकिन, आपूर्ति भी कम हो गई है जिससे वायदा मंच पर किसी भी समय शॉर्ट कवरेज शुरू हो सकती है। मेंथा ऑयल (नवम्बर) वायदा की कीमतों को 870 के करीब सपोर्ट मिलने की संभावना है और 945 पर रेंजिस्टेंस रह सकता है।

घरेलू मांग में कमी के कारण अरंडी की कीमतों में गिरावट की संभावना है। गुजरात में फसल की बेहतर स्थिति और वर्ष 2023 में अरंडी के बुआई क्षेत्र में वृद्धि से अधिक उत्पादन की संभावनाओं से बाजार के सेंटीमेंट पर असर पड़ने की संभावना है। अरंडी (नवम्बर) वायदा की कीमतों को 5830-6200 के दायरे में रहने की संभावना है।

सर्गाफा

मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण सोने की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह वृद्धि जारी रही, जिसके कारण निवेशकों ने सर्गाफा की सुरक्षा की तलाश शुरू कर दी है। इजरायल-हमास संघर्ष सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है। इजरायली सेना गाजा में एक बड़ा जमीनी हमला कर रही है। इससे चिंताएं बढ़ गई हैं और सुरक्षित-संपत्ति के रूप में सोने की मांग बढ़ गई है। इस महीने की शुरुआत में इजरायल-हमास संघर्ष के बढ़ने के बाद सोने की कीमतों में लगभग 9% की वृद्धि हुई है। लेकिन, उच्च अमेरिकी ब्याज दरों की संभावना ने सोने की कीमतों को 2,000 डॉलर के स्तर से नीचे रखा है, जिस आखिरी बार मई में पार कर गई थी। अमेरिकी डॉलर में साप्ताहिक बढत दर्ज की गई और तीसरी तिमाही में मजबूत आर्थिक विकास के बाद अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में 0.2% की वृद्धि हुई। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के बारे में उम्मीद व्यक्त किया है लेकिन कहा कि इससे लंबी अवधि वाले बांड यील्ड में वृद्धि हो सकती है। निवेशकों का ध्यान अमेरिकी व्यक्तिगत उपभोग व्यय मूल्य सूचकांक पर भी केंद्रित है, जो आगामी अमेरिकी फेडरल रिजर्व नीति बैठक को दिशा प्रदान कर सकता है। अन्य केंद्रीय बैंक समाचारों में, यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, हांगकांग के माध्यम से चीन में सोने का आयात पिछले महीने की तुलना में सितंबर में 11% कम हुआ है। कॉम्पेक्स पर सोने की कीमतें 2,000 डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर के करीब कारोबार कर रही हैं। इस स्तर से ऊपर का ब्रेकआउट कीमतों को 2040 डॉलर तक बढ़ा सकता है, और छोटी अवधि में सपोर्ट 1960 डॉलर पर होगा। सोने की तरह चांदी की कीमत भी बढत जारी रहने की संभावना है, और इसे 21.00 डॉलर के करीब सपोर्ट रह सकता है और 24.50 डॉलर के आसपास रेंजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रह सकती है। एमसीएक्स पर सोने को 59,200 के करीब सपोर्ट रह सकता है और 62,800 के करीब रेंजिस्टेंस का सामना कर सकता है। इसी तरह, चांदी की कीमतों में भी तेजी आ सकती है और इसे 69,000 के करीब सपोर्ट रह सकता है और संभावित रूप से 75,000 के आसपास रेंजिस्टेंस का सामना कर सकता है।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स

पिछले कच्चा तेल वायदा की कीमतों में लगभग 5% की गिरावट हुई लेकिन कीमतें 83 डॉलर प्रति बैरल तक ऊपर कारोबार कर रही हैं। तेल की कीमतों में इस गिरावट का कारण मध्य पूर्व में व्यापक संघर्ष के बारे में कम होती चिंताएं हैं। विश्लेषकों को उम्मीद है कि इजरायली बलों द्वारा गाजा पर प्रत्याशित जमीनी आक्रमण को स्थगित करने के उद्देश्य से चल रहे राजनयिक प्रयास सफल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, दुनिया के अग्रणी तेल उपभोक्ता संयुक्त राज्य अमेरिका में कमजोर मांग के संकेतों ने भी कीमतों पर दबाव डाला। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार पिछले सप्ताह मोटर गैसोलिन और डिस्टिलेट ईंधन दोनों के लिए आपूर्ति किए गए उत्पाद में महत्वपूर्ण गिरावट हुई है। इसके अलावा, रिफाइनरियों द्वारा कच्चे तेल के उपयोग दर में कमी आई। संयुक्त राज्य अमेरिका में उम्मीद से अधिक मजबूत आर्थिक आंकड़ों से पता चलता है कि फेडरल रिजर्व लंबे समय तक उच्च ब्याज दरों को बनाए रखने के अपने मार्ग को जारी रखेगा, जिसने बदले में, तेल की मांग के आउटलेट पर नकारात्मक प्रभाव डाला। आर्थिक कमजोरी के संकेतों के कारण यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा ब्याज दरों में बदलाव नही करने के फैसले के बाद कच्चे तेल के बाजार में मंदी के सेंटीमेंट को बढ़ावा मिला। कच्चे तेल का बाजार अत्यधिक अस्थिर रहने की उम्मीद है, और कीमतें 6,700-7,400 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। दूसरी ओर, अमेरिकी नेचुरल गैस वायदा की कीमतों में 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई गई, जो 20 अक्टूबर को दर्ज 2.9 डॉलर/एमएमबीटीयू के दो सप्ताह के निचले स्तर से उबरते हुए 3.2 डॉलर/एमएमबीटीयू के स्तर को पार कर गई। यह उछाल गैस भंडार में अपेक्षा से कम वृद्धि और अगले दो हफ्तों में अनुमान से अधिक टंड के मौसम और बढ़ती हीटिंग मांग के पूर्वानुमान के कारण दर्ज की गई। नेचुरल गैस की कीमतों के 265-330 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है और कीमतों में गिरावट पर खरीदारी की जानी चाहिए।



बेस मेटल


शीर्ष धातु उपभोक्ता चीन में आर्थिक प्रोत्साहन से मिलने वाले समर्थन की तुलना में मांग को लेकर लगातार चिंता और यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में स्थिरता के संकेतों के कारण बेस मेटल में नरमी के रूझान के साथ कारोबार हो सकता है। चीन ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 1 ट्रिलियन युआन (136.65 बिलियन डॉलर) के सांवरेन बांड जारी करने को मंजूरी दे दी है। यद्यपि इससे प्रभावित क्षेत्र में नए घरों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण को कुछ बढ़ावा मिलेगा, लेकिन यह एक संपूर्ण प्रत्यक्ष प्रोत्साहन के विपरीत है जिसने पिछले दो दशकों में चीन में धातुओं की मांग को बढ़ावा दिया है। तांबे की कीमतें 690-720 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। तांबे की स्क्रैप की आपूर्ति में कमी के साथ-साथ रिफाइंड तांबे की कीमतों में गिरावट से धातु की खपत में सुधार हुआ है, लेकिन मंदी के व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण से तांबे की कीमतों पर दबाव बना रहेगा। वैश्विक खनन कंपनी एंग्लो अमेरिकन ने अपने चिली परिचालन में कटौती के कारण तांबे के लिए 2023 के उत्पादन मार्गदर्शन को कम कर दिया है, जबकि तीसरी तिमाही में धातु का उत्पादन 42% बढ़ गया है। जिंक की कीमतें 210-230 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। इंटरनेशनल लेड एंड जिंक स्टडी ग्रुप के आंकड़ों से पता चलता है कि अगस्त में वैश्विक जिंक बाजार में सरप्लस एक महीने पहले के 2,900 टन से बढ़कर 22,000 मीट्रिक टन हो गया। लेड की कीमतें 180-190 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। इंटरनेशनल लेड और जिंक स्टडी ग्रुप के आंकड़ों से पता चलता है कि वैश्विक लेड बाजार में 2023 के पहले आठ महीनों में 71,000 टन का सरप्लस दर्ज किया गया, जबकि एक साल पहले की अवधि में 141,000 टन की कमी थी। एल्युमीनियम की कीमतें 195-215 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। स्टील लॉन्ग (नवंबर) की कीमतों के 43000-46000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है और कीमतों में बढ़त पर बिकवाली की रणनीति होनी चाहिए।

वर्ष 2022-23 में प्रमुख फसलों का अंतिम अनुमान

दुनिया यूक्रेन और गाजा और अन्य जगहों पर संघर्ष, खाद्य और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से बाजार में अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसम जैसे वैश्विक झटकों के कारण खाद्य संकट के अनिश्चित समय का सामना कर रही है, लेकिन हमारे किसान अपनी कड़ी मेहनत से सबसे अधिक दृढ़ता को साबित कर रहे हैं और हमें खाद्य संकट से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और हमें दुनिया का पोषण करने के लिए खाद्य भंडार की आपूर्ति करने में सक्षम बनाया है।

2022-23 के अंतिम अनुमान के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3296.87 लाख टन होने का अनुमान है, जो 2021-22 के दौरान प्राप्त 3156.16 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन से 140.71 लाख टन अधिक है। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान उत्पादन पिछले पांच वर्षों (2017-18 से 2021-22) के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 308.69 लाख टन अधिक है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन पर कहा है कि हमारे किसान लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिक और संस्थान भी बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि मंत्रालय योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहा है, अतः सभी के प्रयासों से कृषि क्षेत्र में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन सहित बेहतर परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं।



स्रोत: भारतीय कृषि मंत्रालय

आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि पिछले दशक में खाद्यान्न उत्पादन 2012-13 में 257.1 मिलियन टन से लगातार बढ़कर 2022-23 में 329.69 मिलियन टन हो गया है।

2022-23 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 1357.55 लाख टन होने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष के चावल उत्पादन 1294.71 लाख टन से 62.84 लाख टन अधिक है और पिछले पांच वर्षों के औसत उत्पादन 1203.90 लाख टन से 153.65 लाख टन अधिक है।

2022-23 के दौरान गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 1105.54 लाख टन होने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष के गेहूं उत्पादन 1077.42 लाख टन से 28.12 लाख टन अधिक है और औसत गेहूं उत्पादन 1057.31 लाख टन से 48.23 लाख टन अधिक है।

पोषक/मोटे अनाज का उत्पादन 573.19 लाख टन होने का अनुमान है, जो 2021-22 के दौरान प्राप्त 511.01 लाख टन के उत्पादन से 62.18 लाख टन अधिक है। इसके अलावा, यह औसत उत्पादन से भी 92.79 लाख टन अधिक है। श्री अन्न का उत्पादन 173.20 लाख टन होने का अनुमान है।

2022-23 के दौरान दलहन का कुल उत्पादन 260.58 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले पांच वर्षों के औसत दलहन उत्पादन 246.56 लाख टन से 14.02 लाख टन अधिक है। 2022-23 के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन रिकॉर्ड 413.55 लाख टन होने का अनुमान है, जो 2021-22 के दौरान तिलहन उत्पादन की तुलना में 33.92 लाख टन अधिक है। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान तिलहन का उत्पादन औसत तिलहन उत्पादन 340.22 लाख टन से 73.33 लाख टन अधिक है।

2022-23 के दौरान देश में गन्ने का कुल उत्पादन 4905.33 लाख टन होने का अनुमान है। 2022-23 के दौरान गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष के 4394.25 लाख टन के गन्ना उत्पादन की तुलना में 511.08 लाख टन अधिक है।

कपास का उत्पादन 336.60 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के कपास उत्पादन की तुलना में 25.42 लाख गांठ अधिक है। जूट और मेस्ता का उत्पादन 93.92 लाख गांठ (प्रत्येक 180 किलोग्राम) होने का अनुमान है।



आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:

11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:

Lotus Corporate Park, AWing 401 / 402 , 4th Floor ,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटेड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएँ और संबंधित सेवाएँ करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटेड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीबीए स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटेड लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रजुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के साथ रजिस्टर्ड संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटेड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एग्रीडेंट्री द्वारा सिन्डिकेटेड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

डिसक्लेमर: यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्रादाकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सक्तुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डायरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता को ज़रूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश को वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डायरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटी में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटी को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।